

Roll Number/ रोल नंबर	
Signature of the Candidate अभ्यर्थी का हस्ताक्षर	
Signature of the Invigilator निरीक्षक का हस्ताक्षर	

### Written Test/ लिखित परीक्षा

Confidential Code	
-------------------	--

Maximum Marks / अधिकतम अंक : 100

Time/समय : 1 hour

#### Instructions / सूचनायें :-

- Write your roll number in the above box.  
उपर्युक्त बॉक्स में अपना रोल नंबर लिखें।
- This booklet contains 12+12 pages. If your booklet doesn't have 24 pages, get it replaced immediately.  
इस पुस्तिका में 12+12 पृष्ठ हैं। यदि आपकी पुस्तिका में 24 पृष्ठ नहीं हैं, तो इसे तुरंत बदल दें।
- There are 100 multiple choice questions. Answer may be indicated in the booklet itself by a single right tick-mark (✓) against the correct option. **Marks will not be awarded for the answers with overwriting.**  
उत्तर पुस्तिका 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। उत्तर पुस्तिका में ही सही विकल्प के सामने एक टिक-मार्क (✓) द्वारा उत्तर दर्शाया जा सकता है। अधिलेखन (overwriting) वाले उत्तरों पर अंक नहीं दिए जाएंगे।
- There should be no overwriting in marking the answers. **Marks will not be awarded for the answers with overwriting.**  
उत्तर अंकित करते समय अधिलेखन (overwriting) नहीं होना चाहिए। अधिलेखन (overwriting) वाले उत्तरों के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।
- If there is any difference between English and Hindi versions of questions, please follow English version of questions only.  
यदि अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों के बीच कोई अंतर है, तो कृपया केवल अंग्रेजी के प्रश्नों का अनुसरण करें।

\*\*\*

---

## General Awareness

1. **Who was the second Prime Minister of India?**  
(a) Morarji Desai (b) Narendra Modi  
(c) Lal Bahadur Shastri (d) Charan Singh
2. **India became republic in .....**  
(a) 1947 (b) 1946 (c) 1950 (d) 1948
3. **What was the ancient name of Mahabalipuram?**  
(a) Mahamallapuram (b) Mamallapuram (c) Mabalipuram (d) Mahamallipuram
4. **The river that flows between Vindhya and Satpura Ranges is**  
(a) Kshipra (b) Narmada (c) Kaveri (d) Jhelum
5. **A land surrounded by water on three sides is called**  
(a) Island (b) Lagoon (c) Peninsula (d) Plateau
6. **Who was the Chairman of the drafting committee of the Indian constitution**  
(a) K.M. Munshi (b) T.T. Krishnamachari  
(c) B.R. Ambedkar (d) Syed Mohd. Saadullah
7. **Number of Lok Sabha seats at present is....**  
(a) 545 (b) 546 (c) 543 (d) 544
8. **In India, village administration is controlled by**  
(a) Sarpanch (b) Village Revenue Officer  
(c) Gram Panchayat (d) Secretary
9. **The National Sport of India**  
(a) Cricket (b) Football (c) Hockey (d) Badminton
10. **Which country will host Olympics 2024 ?**  
(a) India (b) France (c) Sri Lanka (d) Netherland

## सामान्य जागरूकता

1. भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे?  
(a) मोरारजी देसाई (b) नरेन्द्र मोदी  
(c) लाल बहादुर शास्त्री (d) चरण सिंह
2. भारत कब गणतन्त्र हुआ?  
(a) 1947 (b) 1946 (c) 1950 (d) 1948
3. महाबलिपुरम् का प्राचीन नाम क्या?  
(a) महामल्लपुरम् (b) मामल्लपुरम् (c) माबलिपुरम् (d) महामल्लिपुरम्
4. विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहने वाली नदी क्या है?  
(a) क्षिप्रा (b) नर्मदा (c) कावेरी (d) झेलम
5. तीन तरफ से पानी से घिरा भूभाग को क्या कहा जाता है?  
(a) द्वीप (b) लैगून (c) प्रायद्वीप (peninsula) (d) पठार (plateau)
6. भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे?  
(a) के.एम. मुंशी (b) टी. टी. कृष्णमाचारी  
(c) बी आर अम्बेडकर (d) सैयद मो. सादुल्लाह
7. वर्तमान में भारत में लोक सभा सीटों की संख्या  
(a) 545 (b) 546 (c) 543 (d) 544
8. भारत में, ग्राम प्रशासन को----- द्वारा नियंत्रित किया जाता है।  
(a) सरपंच (b) ग्राम राजस्व अधिकारी  
(c) ग्राम पंचायत (d) सचिव
9. भारत का राष्ट्रीय खेल..  
(a) क्रिकेट (b) फुटबॉल (c) हॉकी (d) बैडमिंटन
10. ओलंपिक 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?  
(a) भारत (b) फ्रांस (c) श्रीलंका (d) नेदरलैंड

- 11. When was the Namami Gange scheme started?**  
(a) 4<sup>th</sup> July 2016      (b) 7<sup>th</sup> July 2016      (c) 5<sup>th</sup> July 2016      (d) 6<sup>th</sup> July 2016
- 12. Which was the capital of Vijayanagar Empire?**  
(a) Puna      (b) Vadodara      (c) Warangal      (d) Hampi
- 13. Our new Parliament House is situated in**  
(a) Hyderabad      (b) Jammu      (c) Old Delhi      (d) New Delhi
- 14. World Health Organisation's Indian Office is at**  
(a) Delhi      (b) Itarsi      (c) Indore      (d) Chennai
- 15. University Grants Commission has jurisdiction over**  
(a) Grants for Universities      (b) Standards for Universities  
(c) Both (a) and (b)      (d) Secondary Education Boards
- 16. 'NEP 2020' stands for**  
(a) National Engineering Policy 2020      (b) National Education Policy 2020  
(c) National Economic Policy 2020      (d) National Ecology Policy 2020
- 17. NEP 2020 is applicable to**  
(a) Primary Education      (b) Secondary Education  
(c) Higher Education      (d) All above
- 18. In ancient times, education was imparted at**  
(a) Schools      (b) Colleges      (c) Universities      (d) Gurukula
- 19. Deep meaning of the word 'Guru' is..**  
(a) One who dispels ignorance      (b) Teacher  
(c) Professor      (d) one who explains meaning briefly
- 20. Which is the National Tree of India?**  
(a) Teak      (b) Coconut tree      (c) Mango Tree      (d) Banyan Tree

11. 'नमामि गंगे योजना' का प्रारंभ कब किया गया था?
- (a) 4 जुलाई 2016 (b) 7 जुलाई 2016  
(c) 5 जुलाई 2016 (d) 6 जुलाई 2016
12. विजय नगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी?
- (a) पुणे (b) वडोदर (c) वारंगल (d) हम्पि
13. हमारा नया संसद भवन कहाँ स्थित है?
- (a) हैदराबाद (b) जम्मू (c) पुरानी दिल्ली (d) नई दिल्ली
14. विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारतीय कार्यालय कहाँ स्थित है?
- (a) दिल्ली (b) इटारसी (c) इंदौर (d) चेन्नई
15. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अधिकार क्षेत्र है
- (a) विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान देना (b) विश्वविद्यालयों के लिए मानक निर्धारण  
(c) दोनों (a) और (b) (d) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
16. 'एनईपी 2020' का पूरा नाम
- (a) राष्ट्रीय इंजीनियरिंग नीति 2020 (b) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020  
(c) राष्ट्रीय आर्थिक नीति 2020 (d) राष्ट्रीय पारिस्थितिकी नीति 2020
17. 'एनईपी 2020' किस पर लागू होती है ?
- (a) प्राथमिक शिक्षा (b) माध्यमिक शिक्षा  
(c) उच्च शिक्षा (d) उपर्युक्त सभी
18. प्राचीन काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी?
- (a) स्कूल (b) महाविद्यालय (c) विश्वविद्यालय (d) गुरुकुल
19. 'गुरु' शब्द का गहरा अर्थ..
- (a) वह जो अज्ञान को दूर करता है (b) अध्यापक  
(c) प्रोफेसर (d) संक्षेप में अर्थ समझानेवाला
20. भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है ?
- (a) सागवान का पेड़ (b) नारियल का पेड़ (c) आम का पेड़ (d) बरगद का पेड़

21. In place of old 10+2 structure, NEP 2020 introduces  
(a) 4+3+3+5 (b) 3+3+5+4 (c) 5+4+3+3 (d) 5+3+3+4
22. Who is the author of the book 'Panchama Veda - Natya Shastra: Nai Drishti'?  
(a) Radhavallabh Tripathi (b) Sushil De (c) Bharat Muni (d) Arjun Dev Charan
23. How is the image formed on the retina of the human eye?  
(a) virtual and inverted (b) real and inverted (c) real and erect (d) virtual and erect
24. What is SSLV?  
(a) Small Satellite Launch Vehicle (b) Smell Satellite Launch Vehicle  
(c) Smile Satellite Launch Vehicle (d) Sneak Satellite Launch Vehicle
25. Which Veda is related to Science & Technology?  
(a) Atharva Veda (b) Panchama Veda (c) Sama Veda (d) Yajurveda

### Numerical Ability

26.  $2 + 2 \div 2 - 2$  is equal to .....  
(a) 1 (b)  $3/2$  (c) 2 (d) 3
27. The missing number in the series 8, 24, 12, 36, 18, 54 ..... is  
(a) 27 (b) 108 (c) 68 (d) 72
28. In a parking, there are 24 cars and 9 bikes. What is the ratio of bikes to cars  
(a) 1 : 4 (b) 1 : 3 (c) 3 : 8 (d) 2 : 3
29. The ratio of Sandeep's age to Pradeep's age is 4 : 3. After 6 years the age of Sandeep will be 26 years. How old is Pradeep now? (in years)  
(a) 18 (b) 21 (c) 15 (d) 24
30.  $0.6 \times 1.4 \div 0.5 \times 15 =$   
(a) 25.2 (b) 28.2 (c) 18.2 (d) 28.5

21. पुराने 10+2 ढांचे के स्थान पर NEP 2020 पेश करता है  
 (a) 4+3+3+5 (b) 3+3+5+4 (c) 5+4+3+3 (d) 5+3+3+4
22. 'पंचम वेद - नाट्य शास्त्र- नवीन दृष्टि' ग्रन्थ का रचयिता कौन है?  
 (a) राधावल्लभ त्रिपाठी (b) सुशील दे (c) भरतमुनि (d) अर्जुन देव चरण
23. मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है?  
 (a) आभासी और उल्टे (b) वास्तविक और उल्टे (c) वास्तविक और सीधा (d) आभासी और सीधा
24. एसएसएलवी क्या है?  
 (a) लघु उपग्रह प्रमोचन यान (b) गंध उपग्रह प्रमोचन यान  
 (c) स्माइल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (d) स्त्रीक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
25. कौन सा वेद 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी' से संबंधित है?  
 (a) अथर्ववेद (b) पंचम वेद (c) सामवेद (d) यजुर्वेद

### संख्यात्मक क्षमता

26.  $2 + 2 \div 2 - 2$  is equal to ..... केबराबरहै ।  
 (a) 1 (b) 3/2 (c) 2 (d) 3
27. 8, 24, 12, 36, 18, 54 ..... इस श्रृंखला में अनुपलब्ध (missing) संख्या क्या है ?  
 (a) 27 (b) 108 (c) 68 (d) 72
28. एक पार्किंग में, 24 कारें और 9 बाइक हैं। बाइक और कारों का अनुपात क्या है?  
 (a) 1 : 4 (b) 1 : 3 (c) 3 : 8 (d) 2 : 3
29. संदीप की आयु और प्रदीप की आयु का अनुपात 4: 3 है। 6 वर्ष के बाद संदीप की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। प्रदीप अब कितने साल का है? (वर्षों में)  
 (a) 18 (b) 21 (c) 15 (d) 24
30.  $0.6 \times 1.4 \div 0.5 \times 15 = ?$   
 (a) 25.2 (b) 28.2 (c) 18.2 (d) 28.5

31. A can finish a work in 18 days and B can do the same work in half of the time taken by A. Then working together, what part of the same work they can finish in a day?
- (a)  $\frac{1}{6}$                       (b)  $\frac{1}{9}$                       (c)  $\frac{2}{5}$                       (d)  $\frac{2}{7}$
32. A man can row 5 km / per hour in still water. If the river is flowing at 1 kmph it takes him 75 minutes to row to a place and come back. How far is the place (in kms)?
- (a) 3                      (b) 2.5                      (c) 4                      (d) None
33. 3 chairs and 2 tables cost Rs. 700. 5 chairs and 3 tables cost Rs. 1100. What is the cost of 2 chairs and 2 tables? (in Rs.)
- (a) 300                      (b) 350                      (c) 450                      (d) 600
34. Find the LCM of 1173 and 1479
- (a) 34017                      (b) 34019                      (c) 34013                      (d) None
35. By selling 150 mangoes, a fruit seller gains the selling price of 30 mangoes. His gain is
- (a) 25%                      (b) 16%                      (c) 24%                      (d) 27%
36. Simplify  $1\frac{2}{9} - 2\frac{1}{3} + 2\frac{1}{6}$
- (a)  $3\frac{1}{6}$                       (b)  $2\frac{1}{9}$                       (c)  $1\frac{1}{18}$                       (d)  $2\frac{5}{6}$
37. There are 6440 soldiers. They are asked to stand in rows to form a perfect square. After forming a square, 40 soldiers are left out. What is the number of soldiers in each row?
- (a) 40                      (b) 80                      (c) 64                      (d) 60
38. How many bricks are required to build a wall of 15 m length, 3 m height and 50 cm thick, if each brick measures 25 cm x 12 cm x 6 cm
- (a) 12,500                      (b) 12,000                      (c) 12,600                      (d) 12,100
39. A boy purchased 5 pencils @ Rs. 3/- each; 3 erasers @ Rs. 2/- each and 3 Sharpeners @ Rs. 5/- each. What is the average expenditure per article?
- (a) 3.27                      (b) 3.5                      (c) 4                      (d) 5
40. In a co-educational secondary school, 65% of the students are boys. If there are 224 girls in the school, find the number of boys in the school
- (a) 640                      (b) 224                      (c) 416                      (d) 426



31. A एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और B उसी कार्य को A द्वारा लिए गए समय के आधे समय में कर सकता है। फिर एक साथ काम करते हुए, वे एक दिन में उसी काम का कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं?  
 (a)  $1/6$  (b)  $1/9$  (c)  $2/5$  (d)  $2/7$
32. एक आदमी स्थिर पानी में 5 किमी /प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। यदि नदी 1 किमी प्रति घंटे की गति से बह रही है, तो उसे एक स्थान पर जाने और वापस आने में 75 मिनट लगते हैं। वह स्थान कितनी दूर (किलोमीटर में) है?  
 (a) 3 (b) 2.5 (c) 4 (d) कोई नहीं
33. 3 कुर्सियों और 2 टेबल की कीमत 700 रुपये है। 5 कुर्सियों और 3 टेबल की कीमत 1100 रुपये है। 2 कुर्सियों और 2 मेजों की कीमत क्या है? (रुपये में)  
 (a) 300 (b) 350 (c) 450 (d) 600
34. 1173 और 1479 का एलसीएम ज्ञात कीजिये।  
 (a) 34017 (b) 34019 (c) 34013 (d) कुछ भी नहीं
35. 150 आमों को बेचकर, एक फल विक्रेता 30 आमों का विक्रय मूल्य प्राप्त करता है। उसका लाभ है —  
 (a) 25% (b) 16% (c) 24% (d) 27%
36. सरलीकृत  $1\frac{2}{9} - 2\frac{1}{3} + 2\frac{1}{6}$   
 (a)  $3\frac{1}{6}$  (b)  $2\frac{1}{9}$  (c)  $1\frac{1}{18}$  (d)  $2\frac{5}{6}$
37. 6440 सैनिक हैं। उन्हें एक संपूर्ण वर्ग बनाने के लिए पंक्तियों में खड़े होने के लिए कहा जाता है। एक ब संपूर्ण वर्ग बनाने के बाद, 40 सैनिकों को छोड़ दिया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या क्या है?  
 (a) 40 (b) 80 (c) 64 (d) 60
38. यदि प्रत्येक ईंट का माप 25 सेमी x 12 सेमी x 6 सेमी है, तो 15 मीटर लम्बाई, 3 मीटर ऊँचाई और 50 सेमी मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता है?  
 (a) 12,500 (b) 12,000 (c) 12,600 (d) 12,100
39. एक लड़के ने 5 पेंसिलें 3/- रुपये प्रति पेंसिल की दर से खरीदीं; 3 इरेज़र 2/- रुपये प्रति इरेज़र की दर से और 3 शार्पनर 5/- रुपये प्रति शारपनर की दर से खरीदीं। प्रति वस्तु का औसत (average) व्यय क्या है?  
 (a) 3.27 (b) 3.5 (c) 4 (d) 5
40. एक सह-शैक्षिक माध्यमिक विद्यालय में, 65% छात्र लड़के हैं। यदि स्कूल में 224 लड़कियां हैं, तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिये।  
 (a) 640 (b) 224 (c) 416 (d) 426

41. The price marked on a book is Rs. 450. If the shopkeeper allows 10% discount, what is the sale price of the book?  
 (a) 45 (b) 495 (c) 405 (d) 400
42. Find out simple interest on Rs. 625/- @  $6\frac{1}{2}$  percent per annum for  $2\frac{1}{2}$  years (in rupees)  
 (a) 101.56 (b) 101 (c) 96.50 (d) 102
43. Some amount was invested for 2 years on annual compound interest. First year interest was Rs. 500/-, second year interest was Rs. 540. What is the sum invested ?  
 (a) 5000 (b) 5400 (c) 6250 (d) 6000
44. The diameter of a circle is 14 cm. What is the area?  
 (a) 154 sq. cm. (b) 172 sq. cm (c) 220 sq. cm. (d) 156 sq. cm.
45. The side of a cube is 6 cm. What is its total surface area  
 (a) 666 sq. cm (b) 333 sq. cm (c) 111 sq. cm (d) 216 sq. cm

46-50 : Study the following table and answer the questions.

Marks obtained in

Subjects	Sanskrit	Veda	English	Hindi
Name of the Student				
Raghav	92	91	78	82
Murali	91	90	80	81
Gopi	78	85	84	85
Sushila	93	92	91	87

46. The name of the student who stood first in the class  
 (a) Raghav (b) Murali (c) Sushila (d) Gopi
47. Who got second marks in Hindi?  
 (a) Sushila (b) Gopi (c) Raghav (d) None
48. Who got 85 marks in Veda?  
 (a) Murali (b) Raghav (c) Gopi (d) None
49. Who got 91 marks in Sanskrit?  
 (a) Murali (b) Gopi (c) Sushila (d) None
50. What is the overall average marks of all the students  
 (a) 346 (b) 345 (c) 347 (d) 348

41. एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 450 रुपये है। यदि दुकानदार 10% छूट देता है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है?  
 (a) 45 (b) 495 (c) 405 (d) 400
42. 625/- रुपये पर प्रति वर्ष 6.5 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज 2.5 वर्षों के लिए ज्ञात कीजिये (रुपये में)  
 (a) 101.56 (b) 101 (c) 96.50 (d) 102
43. कुछ राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई थी। पहले वर्ष का ब्याज 500 रुपये था, दूसरे वर्ष का ब्याज 540 रुपये था। निवेश की गई राशि क्या है?  
 (a) 5000 (b) 5400 (c) 6250 (d) 6000
44. एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो क्षेत्र क्या है?  
 (a) 154 वर्ग सेमी। (b) 172 वर्ग सेमी (c) 220 वर्ग सेमी। (d) 156 वर्ग सेमी।
45. एक घन की भुजा 6 सेमी है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?  
 (a) 666 वर्ग सेमी (b) 333 वर्ग सेमी (c) 111 वर्ग सेमी (d) 216 वर्ग सेमी

46-50 : निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्राप्त अंक

विषयों	संस्कृत	वेद	अंग्रेज़ी	हिंदी
छात्र का नाम				
राघव	92	91	78	82
मुरली	91	90	80	81
गोपी	78	85	84	85
सुशीला	93	92	91	87

46. कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र का नाम-----  
 (a) राघव (b) मुरली (c) सुशीला (d) गोपी
47. हिंदी में दूसरे अंक किसने प्राप्त किए?  
 (a) सुशीला (b) गोपी (c) राघव (d) कोई नहीं
48. वेद में 85 अंक किसने प्राप्त किए?  
 (a) मुरली (b) राघव (c) गोपी (d) कोई नहीं
49. संस्कृत में 91 अंक किसने प्राप्त किए?  
 (a) मुरली (b) गोपी (c) सुशीला (d) कोई नहीं
50. सभी छात्रों के कुल औसत अंक क्या हैं ?  
 (a) 346 (b) 345 (c) 347 (d) 348

## Reasoning Ability

**51-53 Choose the correct word in place of question mark**

**51. TB : Lungs :: Cataract : ?**

- (a) skin                      (b) eye                      (c) ear                      (d) throat

**52. Mango : Fruit :: Jasmine : ?**

- (a) Rose                      (b) Fragrance                      (c) Flower                      (d) Lilly

**53. Iron : Solid :: Mercury : ?**

- (a) Gas                      (b) Vapour                      (c) Air                      (d) Liquid

**54-55 Choose the correct number**

**54. 96 : 24 :: 120 : ?**

- (a) 24                      (b) 30                      (c) 40                      (d) 36

**55. 5 : 25 :: 9 : ?**

- (a) 30                      (b) 90                      (c) 81                      (d) 34

**56. Madhya Pradesh : Bhopal :: Tamil Nadu : ?**

- (a) Lucknow                      (b) Hyderabad                      (c) Chennai                      (d) Bengaluru

**57. Find the odd man out**

- (a) Headmaster                      (b) Principal                      (c) Vice-Chancellor                      (d) Chief Minister

**58. Which number will be next in the series 4, 8, 12, 16, 20, .....**

- (a) 4                      (b) 12                      (c) 16                      (d) 24

**59. Which shall be the next letter in the series A, D, G, J, M, P .....**

- (a) X                      (b) U                      (c) V                      (d) S

**60. A student got marks in English from class 6 to 11 as shown below. Study the data and find out the marks in class 6**

Class	6	7	8	9	10	11
Marks	?	54	63	72	81	90

- (a) 9                      (b) 18                      (c) 27                      (d) 45

## तर्क क्षमता

51-53 प्रश्न चिह्न के स्थान पर सही शब्द चुनिए।

51. टीबी : फेफड़े :: मोतियाबिंद :

- (a) त्वचा (b) आंख (c) कान (d) गला

52. आम : फल :: चमेली :

- (a) गुलाब (b) सुगंध (c) फूल (d) लिली

53. लोहा : द्रुढ़ :: पारद :

- (a) गैस (b) वाष्प (c) वायु (d) तरल

54-55 सही संख्या चुनिए।

54. 96 : 24 :: 120 :

- (a) 24 (b) 30 (c) 40 (d) 36

55. 5 : 25 :: 9 :

- (a) 30 (b) 90 (c) 81 (d) 34

56. मध्य प्रदेश : भोपाल :: तमिलनाडु :

- (a) लखनऊ (b) हैदराबाद (c) चेन्नई (d) बंगलौर

57. अलग शब्द (odd one) का पता लगाएं।

- (a) प्रधानाध्यापक (b) प्रधानाचार्य  
(c) कुलपति (d) मुख्यमंत्री

58. 4, 8, 12, 16, 20, ..... इस श्रृंखला में अगला नंबर कौन सा होगा?

- (a) 4 (b) 12 (c) 16 (d) 24

59. A, D, G, J, M, P.. इस श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा?

- (a) X (b) U (c) V (d) S


60. एक छात्र को कक्षा 6 से 11 तक अंग्रेजी में अंक मिले जैसा कि नीचे दिखाया गया है। डेटा का अध्ययन करें और कक्षा 6 में उस छात्र का अंक ज्ञात करें।

कक्षा	6	7	8	9	10	11
चिह्न	?	54	63	72	81	90


- (a) 9 (b) 18 (c) 27 (d) 45

61. In a village, 70% people owned a car. 75% people owned a TV. If 55% people owned both a car and a TV. What percentage of people are there without a car or a TV  
 (a) 25% (b) 20% (c) 10% (d) 5%

62. Identify the diagram which represents the relationship among ..... Book, Pen, Pencil




- 63-65 Observe the diagram and answer the questions




63. How many ? marks are there in rectangle only ?  
 (a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) 1
64. How many ? marks are there in triangle only ?  
 (a) 3 (b) 5 (c) 2 (d) 4
65. How many ? marks are there common in both the figures ?  
 (a) 2 (b) 1 (c) 3 (d) 7
66. Study the following statements and conclusions and decide which conclusion is correct:
- Statements : 1. No mobile is a watch  
 2. All watches are calculators
- Conclusions : 1. No calculator is a mobile  
 2. Some calculators are mobiles
- (a) Both conclusions are wrong  
 (b) Only conclusion one is correct  
 (c) Only conclusion two is correct  
 (d) Conclusion one is correct or conclusion two is correct

61. एक गाँव में, 70% लोगों के पास एक कार थी। 75% लोगों के पास टीवी था। यदि 55% लोगों के पास कार और टीवी दोनों हैं तो कितने प्रतिशत लोग कार या टीवी के बिना हैं?
- (a) 25% (b) 20% (c) 10% (d) 5%
62. उस रेखा चित्र की पहचान कीजिये जो पुस्तक, कलम, पेंसिल के बीच का संबंध को दर्शाता है।




- 63-65 आरेखित चित्र का अवलोकन कीजिये और प्रश्नों के उत्तर दीजिये।



63. केवल आयत (rectangle) में कितने ? चिह्न हैं?
- (a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) 1
64. केवल त्रिभुज में कितने ? चिह्न हैं?
- (a) 3 (b) 5 (c) 2 (d) 4
65. दोनों आकृतियों में कितने ? चिह्न सामान्य (common) हैं?
- (a) 2 (b) 1 (c) 3 (d) 7
66. निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों का अध्ययन कीजिये और निर्णय कीजिये कि कौन सा निष्कर्ष सही है।
- कथन : 1. कोई मोबाइल घड़ी नहीं है  
2. सभी घड़ियाँ कैलकुलेटर हैं
- निष्कर्ष : 1. कोई कैलकुलेटर मोबाइल नहीं है  
2. कुछ कैलकुलेटर मोबाइल हैं
- (a) दोनों निष्कर्ष गलत हैं  
(b) केवल निष्कर्ष एक सही है  
(c) केवल निष्कर्ष दो सही है  
(d) निष्कर्ष एक सही है या निष्कर्ष दो सही है

67. Which figure is not like other figures



(a) (b) (c) (d)

68. I want to purchase a pen. What should I decide first

- (a) colour of pen (b) quality of its writing  
(c) durability of pen (d) Whether I have money

69. Ram started walking from his house. He went 2 km. opposite to his house. He took 'U' turn and walked 4 km. How far he is from his house ?

- (a) 2 km (b) 4 km. (c) 6 km. (d) None


70. There are 50 students in a class. M is eighth from top. H is 20th from bottom. How many students are there between M and H ?

- (a) 22 (b) 23 (c) 24 (d) 25

71. Match the following

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| A) Father's Father  | 1. Maternal uncle        |
| B) Son's wife       | 2. Brother-in-law        |
| C) Sister's Husband | 3. Daughter-in-law       |
| D) Mother's brother | 4. Paternal Grand Father |
- (a) A-1, B-2, C-3, D-4 (b) A-4, B-3, C-2, D-1  
(c) A-4, B-2, C-3, D-1 (d) A-2, B-1, C-4, D-3

72. How many squares are there in this diagram ?




- (a) 3 (b) 5 (c) 7 (d) 4

73. What is the right order for these words from lowest.

1. First Floor 2. House 3. Village 4. District 5. State  
(a) 1, 2, 3, 4, 5 (b) 5, 4, 3, 2, 1 (c) 3, 4, 5, 1, 2 (d) 1, 2, 3, 5, 4



67. कौन सा रेखाचित्र अन्य रेखाचित्र की तरह नहीं है?



68. मैं एक कलम खरीदना चाहता हूँ। मुझे पहले क्या तय करना चाहिए?

- (a) कलम का रंग (b) इसके लेखन की गुणवत्ता  
(c) कलम का स्थायित्व (d) क्या मेरे पास पैसा है

69. राम अपने घर से पैदल चलने लगा। वह अपने घर के सामने 2 किमी दूर चला गया। उसने 'यू' मोड़ लिया और 4 किमी पैदल चला। वह अपने घर से कितनी दूर पर है?

- (a) 2 किमी (b) 4 किमी। (c) 6 किमी। (d) कुछ भी नहीं

70. एक कक्षा में 50 छात्र हैं। M शीर्ष से आठवें स्थान पर है। H, नीचे से 20 वें स्थान पर है। M और H के बीच कितने विद्यार्थी हैं?


- (a) 22 (b) 23 (c) 24 (d) 25

71. निम्नलिखित का मिलान करें।

- A) पिता का पिता 1. मामा  
B) बेटे की पत्नी 2. जीजा  
C) बहन का पति 3. बहू  
D) माँ का भाई 4. पैतृक दादाजी

- (a) A-1, B-2, C-3, D-4 (b) A-4, B-3, C-2, D-1  
(c) A-4, B-2, C-3, D-1 (d) A-2, B-1, C-4, D-3

72. इस रेखाचित्र में कितने वर्ग हैं?




- (a) 3 (b) 5 (c) 7 (d) 4

73. इन शब्दों के लिए निम्नतम से सही क्रम क्या है?

1. पहली मंजिल 2. घर 3. गांव 4. जिला 5. राज्य  
(a) 1, 2, 3, 4, 5 (b) 5, 4, 3, 2, 1 (c) 3, 4, 5, 1, 2 (d) 1, 2, 3, 5, 4



74-75 निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए



74. उत्तर-पूर्व कोने में कौन है?  
(a) राम (b) कृष्ण (c) मुरली (d) गोपाल
75. दक्षिण-पूर्व कोने में कौन है?  
(a) राम (b) कृष्ण (c) मुरली (d) गोपाल

वेद, संस्कृत, और भारतीय ज्ञान प्रणाली पर सामान्य ज्ञान

76. अथर्ववेद-शौनक शाखा में कितने काण्ड हैं?  
(a) 19 (b) 20 (c) 18 (d) 17
77. भगवत्पाद शङ्कराचार्य जी ने कितने उपनिषदों पर भाष्य रचा था?  
(a) 10 (b) 11 (c) 13 (d) 12
78. 'रामायण' में श्लोक हैं  
(a) 21,000 (b) 9,000 (c) 24,000 (d) 18,000
79. संस्कृत महाकाव्य कौन-सा है?  
(a) विक्रमोर्वशीयम् (b) उत्तर रामचरितम्  
(c) कादम्बरी (d) किरातजुनीयम्
80. गुरुकुलों में कितनी कलाओं की शिक्षा दी जाती थी?  
(a) 64 (b) 46 (c) 14 (d) 41

## Language Comprehension

Fill up the blanks with suitable option :

81. .... European girl came to India  
(a) The (b) An (c) A (d) None
82. Each of the students ..... a prize  
(a) get (b) gets (c) have got (d) have not got
83. It has been raining ..... Monday  
(a) since (b) from (c) for (d) hence
84. Which is the ..... tea, coffee or milk?  
(a) good (b) better (c) best (d) most good
85. .... is a good exercise  
(a) Swim (b) To swim (c) Swimming (d) To swimming
86. .... is the Synonym of 'Hamper'  
(a) unblock (b) smooth (c) prevent (d) None
87. .... is the Antonym of 'condemn'  
(a) Disagree (b) Approve (c) Conceit (d) None

The following sentences can be written as

88. 'He annoyed her' can be written as  
(a) She was annoyed her (b) She was annoyed at her  
(c) She was annoyed to her (d) She was annoyed by him
89. He said, 'The Sun sets in the West' can be written as  
(a) He said that the Sun sets in the West  
(b) He told that the Sun sets in the West  
(c) He informed that the Sun would set in the West  
(d) He said that the Sun would set in the West
90. 'Very few employees are as good as Sameer' can be written as  
(a) Sameer is the best of all the employees  
(b) Sameer is better than all the employees  
(c) Sameer is not better than most other employees  
(d) Sameer is one of the best employees

## भाषा की समझ

Fill up the blanks with suitable option :

81. .... European girl came to India  
(a) The (b) An (c) A (d) None
82. Each of the students ..... a prize  
(a) get (b) gets (c) have got (d) have not got
83. It has been raining ..... Monday  
(a) since (b) from (c) for (d) hence
84. Which is the ..... tea, coffee or milk?  
(a) good (b) better (c) best (d) most good
85. .... is a good exercise  
(a) Swim (b) To swim (c) Swimming (d) To swimming
86. .... is the Synonym of 'Hamper'  
(a) unblock (b) smooth (c) prevent (d) None
87. .... is the Antonym of 'condemn'  
(a) Disagree (b) Approve (c) Conceit (d) None

The following sentences can be written as

88. 'He annoyed her' can be written as  
(a) She was annoyed her (b) She was annoyed at her  
(c) She was annoyed to her (d) She was annoyed by him
89. He said, 'The Sun sets in the West' can be written as  
(a) He said that the Sun sets in the West  
(b) He told that the Sun sets in the West  
(c) He informed that the Sun would set in the West  
(d) He said that the Sun would set in the West
90. 'Very few employees are as good as Sameer' can be written as  
(a) Sameer is the best of all the employees  
(b) Sameer is better than all the employees  
(c) Sameer is not better than most other employees  
(d) Sameer is one of the best employees

91. 'पृथ्वी' शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है?  
 (a) वसुन्धरा (b) धरा (c) धरणी (d) पृथक्
92. 'सीधा' शब्द का विलोम शब्द क्या है?  
 (a) ऋजु (b) कठिन (c) टेढ़ा (d) सरल
93. 'सीता जा रही है'।— यह वाक्य-----कॉल मैं है।  
 (a) भूत (b) भविष्य (c) वर्तमान (d) नित्य
94. व्याकरण के अनुसार उत्तम पुरुष कौन सा है?  
 (a) मैं (b) तुम (c) वह (d) कौन
95. 'घर' शब्द का बहुवचन क्या है?  
 (a) घर (b) घरे (c) घरों (d) कुछ भी नहीं
96. 'नाती' शब्द का स्त्रीलिंग क्या है?  
 (a) नातियां (b) नातिए (c) नातिन (d) नातीं
97. 'विदुषी' शब्द का पुल्लिंग क्या है?  
 (a) विदुषीमणी (b) विद्वान् (c) पंडित (d) शिक्षक
- 98-100 शुद्ध रूप पहचानिए
98. चाय कैसे बनता है।  
 (a) चाय बनता है कैसे। (b) चाय बन रहा है।  
 (c) चाय कैसे बनती है। (d) चाय कैसे बनता है।
99. उसने बहुत चीजें लाया।  
 (a) वह बहुत चीजें लाया। (b) वह बहुत चीज़ लाई।  
 (c) उसने अधिक चीज़ लाई। (d) उसने चीज़ लाया।
100. मैं मेरे कहानी सुनाऊंगा।  
 (a) मैं मेरे कहानी सुनाऊंगा। (b) मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा।  
 (c) मैं मेरी कहानी सुनाऊंगा। (d) मैं अपना कहानी सुनाऊंगा।

\*\*\*

91. 'पृथ्वी' शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है?  
 (a) वसुन्धरा (b) धरा (c) धरणी (d) पृथक्
92. 'सीधा' शब्द का विलोम शब्द क्या है?  
 (a) ऋजु (b) कठिन (c) टेढ़ा (d) सरल
93. 'सीता जा रही है'।— यह वाक्य-----कॉल में है।  
 (a) भूत (b) भविष्य (c) वर्तमान (d) नित्य
94. व्याकरण के अनुसार उत्तम पुरुष कौन सा है?  
 (a) मैं (b) तुम (c) वह (d) कौन
95. 'घर' शब्द का बहुवचन क्या है?  
 (a) घर (b) घरे (c) घरों (d) कुछ भी नहीं
96. 'नाती' शब्द का स्त्रीलिंग क्या है?  
 (a) नातियां (b) नातिए (c) नातिन (d) नार्ती
97. 'विदुषी' शब्द का पुल्लिंग क्या है?  
 (a) विदुषीमणी (b) विद्वान् (c) पंडित (d) शिक्षक
- 98-100 शुद्ध रूप पहचानिए
98. चाय कैसे बनता है।  
 (a) चाय बनता है कैसे। (b) चाय बन रहा है।  
 (c) चाय कैसे बनती है। (d) चाय कैसे बनता है।
99. उसने बहुत चीजें लाया।  
 (a) वह बहुत चीजें लाया। (b) वह बहुत चीज़ लाई।  
 (c) उसने अधिक चीज़ लाई। (d) उसने चीज़ लाया।
100. मैं मेरे कहानी सुनाऊंगा।  
 (a) मैं मेरे कहानी सुनाऊंगा। (b) मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा।  
 (c) मैं मेरी कहानी सुनाऊंगा। (d) मैं अपना कहानी सुनाऊंगा।

\*\*\*

For Rough Work